

**F. No.ASI-17/2/2023-ASI/Asiatic
Government of India
Ministry of Culture**

**Shastri Bhawan, New Delhi.
Dated 26th June, 2023**

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Filling up the post of Director General in Archaeological Survey of India, Head Quarter, New Delhi under Ministry of Culture on deputation or on contract basis.

Applications are invited for appointment to the post of Director General in Level-15 of Pay matrix [Pre-revised-Pay Band Higher Administrative Grade (HAG)] Rs.67000- (annual increment @ 3%) – 79000/-], General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial in Archaeological Survey of India, Head Quarter, New Delhi, an Attached Office under the Ministry of Culture, Government of India, on deputation or on contract basis. The mode of selection is through high-level Search-cum-Selection Committee under the chairmanship of Cabinet Secretary.

2. Job Description:

The incumbent will head the Archaeological Survey of India and will be overall in-charge of its functioning and will work with the Ministry of Culture for coordination and policy formulation.

3. Eligibility

I. On deputation basis

Officers under the Central Govt. or the State Government or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognized research institution or semi-Government or statutory or Autonomous Organizations:

(a)(i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in the scale of pay of Rs.37400-67000 with grade pay Rs.10000 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:-

- (i) Master's Degree from a recognized University or equivalent:
- (ii) fifteen years' experience (including research work) in archaeology or architecture or conservation or history or anthropology out of which five years' experience shall be in the administration.

Desirable:

Bachelor's Degree in Management from a recognized University or equivalent.

Note : The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date for receipt of applications.

II. On Contract basis

Persons possessing qualifications and experience specified for appointment by deputation.

Note 1: The maximum age limit for appointment on contract basis shall not exceed sixty seven years as on the closing date for receipt of applications.


Note 2: Appointment on contract basis shall be for a period of three years and may be extended subject to satisfactory performance and maximum age limit of seventy years.

Note 3: In case of appointment on contract basis, the terms and conditions of service of the incumbent of the post shall be as applicable to a Group A officer of the Central Government holding analogous post.

4. Applications, in duplicate, in the prescribed proforma and complete up-to-date CR dossier (for the last five years) of the Officers who can be spared in the even of their selection alongwith (i) Vigilance Clearance, (ii) Integrity Certificate, (iii) Cadre Clearance, and major/minor penalty statement for the last 10 years should reach the undersigned through proper channel within a period of 60 days from the date of publication of advertisement in Employment News. Applications received after the due date or otherwise incomplete will not be considered and

stand rejected. The applications/CV not accompanied by supporting certificates/documents in support of Qualifications and experience claimed by the candidates shall not be processed.

5. The details regarding eligibility conditions, educational qualifications and experience, application form, Recruitment Rules, date of receipt of applications etc. attached to the post are available on the website of this Ministry at www.indiaculture.nic.in.


(Arnab Aich)

Under Secretary to the Government of India

Tel.: 011-23389480

Email:-arnab.aich@nic.in

To

1. Shri Surya Prakash, Under Secretary, Admn. 3A/II, NB, D/o Personnel & Training, North Block, New Delhi-110001 (s.prakash11@nic.in) with request to upload it on the website of DoP&T for wide publicity.
2. Office of DG, ASI with request to upload it on the website of ASI.
3. NIC, M/o Culture with request to upload it on the website of the Ministry.

ANNEXURE

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA FOR THE POST OF DIRECTOR GENERAL,
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, HEAD QUARTER, NEW DELHI.

1.Name and Address (in Block Letters)	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4.Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualifications/ experience possessed by the officer
I On deputation basis Officers under the Central Government or the State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research institutions or semi- Government or statutory and autonomous Organizations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii)with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-14 of Pay Matrix [Pre- revised- Pay Band of Rs. 37400- 67000/- with Grade Pay of Rs. 10000/-] or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as	Essential:-

under:

(i) Master's degree from a recognized University or equivalent;

(ii) fifteen years' experience (including research work) in archaeology or architecture or conservation or history or anthropology out of which five years' experience shall be in the administration.

Desirable:

Bachelor's Degree in Management from a recognized University or equivalent.

Note: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed **fifty six** years as on the closing date for receipt of applications.

II On contract basis

Persons possessing qualifications and experience as specified in item I above for appointment by deputation.

Note 1: The maximum age limit for appointment on contract basis shall not exceed **sixty seven** years as on the closing date for receipt of applications,

Note 2: Appointment on contract basis shall be for a period of **three years** and may be extended subject to satisfactory performance and maximum age limit of **seventy years**.

Note 3: In case of appointment on contract basis, the terms and

Desirable:-

conditions of service of the incumbent of the post shall be as applicable to a Group 'A' officer of the Central Government holding analogous post.	
5.1 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.	
6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	
6.1 Note: Parent Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.	

7. Details of Employment, in chronological order. **Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.**

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	*Pay Band and GradePay/Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of Duties (in detail) highlighting experience required for the post applied for

* Important : Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned . Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP / MACP Scheme	From	To

8.Nature of present employment i.e. Adhoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent			
9.In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/	c) Name of the parent office/organization	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent

	contract	to which the applicant belongs	organisation
<p>9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate.</p> <p>9.2 Note: Information under Column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organisation</p>			
10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.			
<p>11. Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)</p> <p>a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organization d) Government Undertaking e) Universities f) Others</p>			
12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.			
13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale			
14. Total emoluments per month now drawn			
Basis Pay in the PB	Grade Pay	Total Emoluments	
15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the following details may be enclosed.			
Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/interim relief /other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments	
<p>16.A Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and</p>			

above prescribed in the Vacancy Circular /Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)	
16.B Achievements: The candidates are requested to indicate information with regard to; (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/institutions/societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organization (v) Any research/ innovative measure involving official recognition vi) any other information. (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)	
17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC)/Absorption/Re-employment Basis.# (Officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non- Government Organizations are eligible only for Short Term Contract)	
# (The option of 'STC' / 'Absorption'/Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment").	
18. Whether belongs to SC/ST	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the candidate)

Address-----

Date-----

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt._____.

ii) His/ Her integrity is certified.

iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.

iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years Or A list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2009/भाद्र 24, 1931

No. 536]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2009/BHADRA 24, 1931

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 679(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, महा निदेशक तथा अपर महा निदेशक (समूह 'क') भर्ती नियम, 2002 को जहां तक उनका संबंध महा निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महा निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2009 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों पर भर्ती की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता : वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-बैंड/वेतन-ग्रेड	चयन पद या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती करने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
महानिदेशक	(एक)* *(2009) के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'क') राजपत्रित-अनुसचिवीय	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड 67000/- रु0 (वार्षिक वृद्धि 3% की दर से) 79000/रु0	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता
(8) सीधी भर्ती करने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	(9) सीधी भर्ती करने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू	(10) परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	(11) भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(12) प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	(13) यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	(14) भर्ती करने में किन् परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

	<p>विभाग में 37400 - 67000/- रु० के वेतनमान 10000/-रु० के ग्रेड-वेतन या समतुल्य के पद में नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो: और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हैं:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा इसके समतुल्य; (ii) पुरातत्व विज्ञान अथवा वास्तुकला अथवा संरक्षण अथवा इतिहास अथवा मानव विज्ञान में 15 वर्ष का अनुभव (अनुसन्धान कार्य सहित) जिसमें से 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। बाछनीय: किसी मान्यता प्राप्त</p>	<p>प्रक्रिया अपना सकेगी तथा उनके नामों पर विचार कर सकेगी। विभाग खुले विज्ञापन, अपनी वेबसाइट तथा समिति-सदस्यों के वैयक्तिक-ज्ञान के माध्यम से भर्ती के लिए व्यापक प्रचार करेगी। स्थिति के विज्ञापन का सचिवालय संबंधी कार्य, उसे उनकी वेबसाइट पर डालना, नामनिर्देशन मांगने के अन्य स्वीकार्य तरीके संस्कृति मंत्रालय द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। प्रतिष्ठित व्यवसायियों की संविदा - आधार पर नियुक्ति की जा सकती है।</p>	
--	---	--	--

			<p>विश्वविद्यालय से प्रबन्धन में स्नातक उपाधि अथवा इसके समतुल्य।</p> <p>टिप्पणः प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>3 संविदा के आधार पर ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए ऊपर मद 2 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण -1 संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण-2 संविदा के आधार पर नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTRY OF CULTURE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2009

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Archeological Survey of India, Director General and Additional Director General ("Group 'A'") Recruitment Rules 2002, in so far as it relates to the post of the Director General, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General in the Archaeological Survey of India, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Director General, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2009;
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and scale of pay. - The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
4. Disqualifications. - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

3385 GI/09-3

SCHEDULE

(1) Name of the post.	(2) Number of post.	(3) Classification.	(4) Pay Band /Grade Pay.	(5) Whether selection post or non-selection post.	(6) Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	(7) Age limit for direct recruits.
Director General.	One* *(2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A') Gazetted, Ministerial.	HAG Rs 67000- (annual increment @ 3%)- 79000/-	Not applicable.	No.	Not applicable.
(8) Educational and other qualification s required	(9) Whether age and educational qualification	(10) Period of probation, if any.	(11) Method of recruitment, whether direct	(12) In case of recruitment by promotion/ deputation/	(13) If Departmental Promotion Committee exists,	(14) Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in

for direct recruits.	s prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	absorption, grades from which promotion or deputation/contract to be made.	what is its composition.	making recruitment.
Not applicable.	Not applicable.	Promotion/ deputation/ on contract basis.	I. <u>Promotion</u> Additional Director General in Pay Band IV and in Grade Pay Rs 10,000 with three years' regular service in the grade.	Search-cum- Selection Committee 1. Cabinet Secretary Chairman. 2. Principal Secretary Prime Minister	Consultation with Union Public Service Commission not necessary for filling up of post.

<p>II. Deputation</p> <p>Officers under the Central Government or the State Government or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a)(i) holding</p>	<p>3. Secretary, Department of Personnel and Training — Member.</p> <p>4. Secretary (Culture) — Member.</p> <p>5. Three experts from one or more of the fields of Archaeology or Conservation or History or Anthropology be nominated with the approval of</p>	<p>— Member.</p>
---	--	------------------

	<p>analogous post on regular basis; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 37400 - 67000 with grade pay Rs.10000 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing</p>	<p>Prime Minister, from among five experts suggested by the Ministry of Culture with the approval of Minister of Culture - Members.</p> <p>Note:- The search-cum-Selection Committee may adopt a flexible procedure to seek out and consider names of persons of outstanding ability in the</p>

	<p>the following educational qualifications and experience-</p> <p>(i) Master's Degree from a recognized University or equivalent:</p> <p>(ii) fifteen years' experience (including research work) in archaeology or architecture or conservation or history or anthropology out of which five years' experience</p>	<p>respective field.</p> <p>The Department shall give wide publicity to the recruitment through open advertisement, its website and through personal knowledge of committee members.</p> <p>The secretarial task of advertisement of the position, posting them on their website and other accepted means of</p>	
--	--	--	--

	<p>shall be in the soliciting administration. nominations shall be performed by the Ministry of Culture. Eminent professionals can be appointed on contract basis.</p>	<p>shall be in the administration. Desirable: Bachelor's Degree in Management from a recognised University or equivalent.</p>				
		<p>Note : The maximum age for appointment by deputation shall not exceed fifty Six years as on the closing date for receipt of applications.</p>				

				<p>III. <u>On contract basis</u> Persons possessing qualifications and experience specified in item II above for appointment by deputation. Note: 1. The maximum age limit for appointment on contract basis shall not exceed sixty seven years as on the closing date for receipt</p>		
--	--	--	--	---	--	--

	<p>of applications.</p> <p>Note 2. Appointment on contract basis shall be for a period of three years and may be extended to satisfactory performance and maximum age limit of seventy years.</p> <p>Note 3. In case of appointment on contract basis, the terms and conditions of service of the</p>				
--	---	--	--	--	--

